

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति 2024

प्रलिस के लिये:

स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अपशषिट से खाद बनाना, जेब से खर्च (Out-of-Pocket Expenditure: OOPE), सहायक नर्स और परसाविका (ANM), डॉक्टर-रोगी अनुपात, आयुषमान भारत, टेलीमेडिसिनि, मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वच्छ भारत मिशन

मेन्स के लिये:

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में चुनौतियाँ और उन्हें बेहतर बनाने के सुझाव।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और डेवलपमेंट इंटेलेजेंस यूनिट नामक NGO द्वारा '2024' रपॉर्ट जारी की गई।

- सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों को शामिल किया गया।
- प्राप्त प्रतिदर्शों में 52.5% पुरुष प्रतिदर्शी और 47.5% महिला प्रतिदर्शी शामिल थे।

रपॉर्ट की मुख्य तथ्य क्या हैं?

- स्वास्थ्य बीमा कवरेज: देश में केवल 50% ग्रामीण परिवारों के पास सरकारी स्वास्थ्य बीमा है, जबकि 34% के पास कोई स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है।
 - सर्वेक्षण किये गए 61% परिवारों के पास जीवन बीमा नहीं है।
- नदिन सुविधाओं तक पहुँच: ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण नदिन सुविधाओं की कमी है।
 - आवागमन योग्य दूरी के दायरे में उपलब्ध डायग्नोस्टिक सेंटर (नदिन सुविधा केंद्रों) तक केवल 39% प्रतिदर्शियों की पहुँच है।
 - 90% प्रतिदर्शी डॉक्टर की सलाह के बिना रूटीन चेक अप अर्थात् नयिमति स्वास्थ्य जाँच कराते ही नहीं हैं।
- सब्सिडी वाली दवाओं तक पहुँच: केवल 12.2% परिवारों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से सब्सिडी वाली दवाइयों की सुविधा प्राप्त हो पाती है।
 - केवल 26% प्रतिदर्शियों के पास स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के परिसर में स्थिति नशुल्क दवाइयाँ प्रदान करने वाले सरकारी मेडिकल स्टोर तक पहुँच है।
 - 61% प्रतिदर्शियों के पास आवागमन की दूरी के भीतर नज्दी मेडिकल स्टोर तक पहुँच है।
- जल निकासी व्यवस्था: 20% परिवारों ने बताया कि उनके गाँवों में कोई जल निकासी व्यवस्था नहीं है और केवल 23% के पास अपने गाँवों में जल निकासी व्यवस्था है।
 - 43% परिवारों के पास अपशषिट नपिटान की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं थी और वे अपना अपशषिट कहीं भी फेंक देते थे।
 - केवल 11% परिवार सूखे अपशषिट को जलाते हैं और अपने गीले अपशषिट को खाद में परिणत करते हैं, जबकि 28% ने बताया कि स्थानीय पंचायत ने घरेलू अपशषिट को एकत्र करने की योजना बनाई है।
- वृद्ध जनों की देखभाल: वृद्ध जन सदस्यों वाले 73% परिवारों को नरिंतर देखभाल की आवश्यकता होती है और अधिकांश (95.7%) परिवार के देखभालकर्त्ताओं को प्राथमिकता देते हैं, मुख्य रूप से महिलाएँ (72.1%), जो घर-आधारित देखभाल पर देखभालकर्त्ता प्रशिक्षण की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
 - केवल 3% परिवारों ने भुगतान किये गए बाह्य देखभालकर्त्ताओं को नियुक्त किया है।
 - 10% परिवार देखभालकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण पड़ोस के सहयोग पर निर्भर हैं।
- गर्भवती महिलाओं की देखभाल: गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने वालों में अधिकांश पति (62.7%), सास (50%) और माताएँ (36.4%) शामिल हैं।
 - रपॉर्ट में सुदृढ़ सामाजिक नेटवर्क, सहायक वातावरण और परिवार की देखभाल करने वालों के लिये क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर

ज़ोर दिया गया है।

- मानसिक स्वास्थ्य विकार: अधिकांश समय लैंगिक आधार पर 45% प्रत्यर्थियों को चिंता और बैचेनी होती है जो उनके मनःस्थिति को प्रभावित करती है।
 - चिंता और बैचेनी युवा लोगों की तुलना में वृद्ध जनों के मानसिक स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करती है।

ग्रामीण भारत में खराब स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के क्या कारण हैं?

- आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय: भारत के लिये [राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान \(वर्ष 2019-20\)](#) के अनुसार, [जेब से खर्च \(OOPE\)](#) कुल स्वास्थ्य व्यय का 47.1% है।
 - ओडिशा में 25% परिवारों को स्वास्थ्य सेवा लागत का सामना करना पड़ा और 40% परिवारों को अस्पताल में भरती होने के बाद स्वास्थ्य सेवा लागत का भुगतान करने के लिये या तो ऋण लेना पड़ा या फिर संपत्ति बेचनी पड़ी।
- योग्य कर्मियों की कमी: भारत ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य स्वास्थ्य पेशवरों की भारी कमी से ग्रस्त है।
 - राज्यों में छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में डॉक्टरों की सबसे अधिक रकित्तियाँ (71%) हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (44%), महाराष्ट्र (37%) और उत्तर प्रदेश (36%) हैं।
 - देश में [सहायक नर्स और प्रसाविका \(ANM\)](#) के लिये कुल रकित्तियाँ 5% हैं।
- डॉक्टर-रोगी अनुपात: भारत में [डॉक्टर-रोगी अनुपात लगभग 1:1456](#) है, जो [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) द्वारा अनुशंसित अनुपात 1:1000 से कम है।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है, जहाँ डॉक्टरों की कमी के कारण यह अनुपात काफी अधिक है।
- कम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय: स्वास्थ्य पर राज्य का व्यय अभी भी काफी कम है, जो [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) का केवल 1.28% है। ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को प्रायः बजट का एक छोटा हिस्सा मिलता है, जिससे [स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को कम वित्तपोषित](#) किया जाता है।

आगे की राह

- स्वास्थ्य बीमा कवरेज को सुदृढ़ करना: [आयुष्मान भारत](#) जैसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की पहुँच का वसितार करने की आवश्यकता है ताकि लगभग 350 मिलियन भारतीयों में स्वास्थ्य बीमा तक पहुँच से वंचित 'लुप्त मध्यम वर्ग' को शामिल किया जा सके।
 - इससे आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में कमी आणी और परिवारों को स्वास्थ्य सेवा लागत के कारण [कर्ज़ में डूबने से बचाया जा सकेगा](#)।
 - सभी फ़ैक्टरी मज़दूरों को राज्य प्रायोजित [सहायकी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं](#) के तहत शामिल किया जाना चाहिये।
 - 'लुप्त मध्यम वर्ग' में वे जनसंख्या समूह शामिल हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र के काम में लगे हुए हैं और बीमा प्रीमियम में राज्य सब्सिडी वाले योगदान से लाभ उठाने के लिये गरीब की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिये ग्रामीण पोस्टिंग को प्रोत्साहित करना: ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक स्वास्थ्य सेवा पेशवरों के लिये उच्च वेतन, बेहतर जीवन-नरिवहन स्थिति और कैरियर में उन्नति के अवसर जैसे आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किये जाने चाहिये।
 - छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे उच्च रकित्तियों वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- चिकित्सा शिक्षा का वसितार: ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग स्कूलों की संख्या में वृद्धि कर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि छात्रों को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करके प्रशिक्षित किया जाए।
 - इससे डॉक्टर-रोगी अनुपात में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर-रोगी अनुपात में अंतर को पाटने के लिये [टेलीमेडिसिन](#) और [मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक](#) का उपयोग किया जाना चाहिये।
 - ये मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ को कम करते हुए दूरस्थ परामर्श और अनुवर्ती देखभाल प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।
- मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयाँ: मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाइयाँ तैनात करने की आवश्यकता है, जो दूरदराज़ के क्षेत्रों में जा सकें, आवश्यक नैदानिक सेवाएँ प्रदान कर सकें और रोगियों को लंबी दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता को कम कर सकें।
- समुदाय-नेतृत्व वाले स्वच्छता कार्यक्रम: स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखने और अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
 - [स्वच्छ भारत मिशन](#) जैसे कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अनुकूलित किया जाना चाहिये।

दृष्टभेन्स प्रश्न:

प्रश्न: ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये उपचारात्मक उपायों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न . 'डॉक्टरस वदिउट बॉर्डर्स (मेडिसिन सैन्स फ्रंटियर्स)', जो अक्सर खबरों में रहता है, (2016)

- (a) वशिव स्वास्थय संगठन का एक प्रभाग है
- (b) एक गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है
- (c) यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित एक अंतर-सरकारी एजेंसी है
- (d) संयुक्त राष्ट्र की एक वशिष एजेंसी है

उत्तर: (b)

प्रश्न. जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है (2012)

1. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना
2. प्रसव की लागत को पूरा करने के लिये माँ को आर्थिक सहायता प्रदान करना
3. गर्भावस्था और कारावास के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

Q. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मशिन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता 'आशा (ASHA)' के कार्य नमिनलखिति में से कौन-से हैं? (2012)

1. स्त्रियों को प्रसव-पूर्व देखभाल जाँच के लिये स्वास्थ्य सुवधि केंद्र साथ ले जाना
2. गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिये गर्भावस्था परीक्षण कटि प्रयोग करना
3. पोषण एवं प्रतरिक्षण के वषिय में सूचना देना ।
4. बच्चे का प्रसव कराना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 4
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनविर्यता होने के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना सतत् विकास के लिये एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" वशिलेषण कीजिये। (2021)

प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु, वशिष रूप से वृद्धावस्था और मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ठोस एवं पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल नीतियों की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न. भारत में वृद्ध आबादी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। (2013)